



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 511]  
No. 511]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 1981/कार्तिक 26, 1903  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 1981/KARTIKA 26, 1903

हम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

सम्पदा-शुल्क

क्र० घा० 801 (घ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पदा-शुल्क नियम, 1953 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनता है, अर्थात् —

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सम्पदा-शुल्क (संशोधन) नियम, 1981 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सम्पदा शुल्क नियम, 1953 में, —

(क) नियम 2 के खंड (क) को पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तर्गत —  
स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(ख) “प्राधिकृत बैंक” से ऐसा कोई बैंक अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन, उसके अधिकारों के रूप में नियुक्त किया जाए”,

(ख) नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (ग) में, —

- (1) “किसी सरकारी खजाने या उप-खजाने या” शब्दों का लोप किया जाएगा
- (ii) “अथवा उसकी किसी एजेंसी में, या सरकारी खजाने का काम करती हा या किसी प्राय बैंक में जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत किया हो” शब्दों के स्थान पर “या प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) प्ररूप सं० शु० 7, सं० शु० 7क और सं० शु० 7ख के पैरा 2 में,

“खजाना अधिकारी”

उपखजाना अधिकारी”

एजेंट, भारतीय स्टेट बैंक” शब्दों के स्थान पर  
“प्रबन्धक, प्राधिकृत बैंक”

प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक” शब्द रखे जाएंगे,

(घ) प्ररूप सं० शु०, 9ख के नीचे “ध्यान दीजिए - (2)” में “खजाने” शब्द के स्थान पर “प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा” शब्द रखे जाएंगे;

- (इ) प्ररूप सं० नु० 10 के नीचे "जमाने में" "खजाने या इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में" शब्द रखे जाएंगे ;
- (च) प्ररूप सं० नु० 10 के नीचे टिप्पण (2) में "खजाने में" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में" शब्द रखे जाएंगे ;
- (छ) प्ररूप सं० नु० 13 और सं० नु० 13क के नीचे, पाठ टिप्पण में "खजाने में" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 4311/फा० सं० 112(7)77-टी० पी० एन०]

एस० एन० शेंडे, निदेशक  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1981

### ESTATE DUTY

**S.O. 801(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 85 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Estate Duty Rules, 1953. namely :—

1. (1) These rules may be called the Estate Duty (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Estate Duty Rules, 1953,—

(a) in rule 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(b) “authorised bank” means any bank as may be appointed by the Reserve Bank of India as its

agent under the provisions of sub-section (1) of section 45 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);”

(b) in rule 18, in sub-rule (1), in clause (c),—

(i) the words “at any Government treasury or sub-treasury or” shall be omitted ;

(ii) for the words “or at any of its agencies conducting Government treasury business or at any other bank authorised by the Central Government in this behalf”, the words “or at any branch of the authorised bank” shall be substituted ;

(c) in Forms E.D. 7, E.D. 7A and E.D. 7B, in paragraph 2, for the words

“Treasury Officer\*  
\_\_\_\_\_

Sub-Treasury Officer\*  
\_\_\_\_\_

Agent, State Bank of India\*\* :  
\_\_\_\_\_

“Manager, authorised bank”  
\_\_\_\_\_

the words \_\_\_\_\_

Manager, State Bank of India’

shall be substituted ;

(d) in the “N.B.” 2 below Form E.D. 9B, for the words “the Treasury”, the words “a branch of the authorised bank” shall be substituted ;

(e) in the “N.B.” below Form E.D. 10, for the words “the treasury or a branch of the Imperial Bank of India”, the words “a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India” shall be substituted ;

(f) in Note (2) below Form E.D. 10A, for the words “the Treasury”, the words “a branch of the authorised bank” shall be substituted ;

(g) in the footnote below Forms E.D. 13 and 13A, for the words “the Treasury”, the words “a branch of the authorised bank” shall be substituted.

[No. 4311/F. No. 142(7)/77-TPL]

S. N. SHENDE, Director  
Central Board of Direct Taxes